

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 548]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2016—पौष 8, शक 1938

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2016

अधि. क्र. 42-एफ 1-13-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) के अंक क्रमांक 384 में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 11 एफ-1-13-2016-अठारह-3, दिनांक 15 सितम्बर 2016 से नगर पालिक निगमों में एल्डरमेन मनोनीत किये गये थे, जिसमें नगर पालिक निगम, भोपाल के मनोनीत एल्डरमेन का नाम त्रुटिपूर्ण अंकित हो गया है, के स्थान पर क्रमांक (4) में अंकित संशोधित नाम एवं पता पढ़ा जाये:—

क्र.	नगर पालिक निगम का नाम	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता	संशोधित नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	नगर पालिक निगम, भोपाल	श्री शिवलाल मकरोनिया श्री गया प्रसाद मकरोनिया 245, आरहाउस पी. खजूरी कला रोड भेल, भोपाल.	श्री शिवलाल मकरोरिया, पिता श्री गया प्रसाद मकरोरिया म. नं. 24, एस.आर.जी. होम्स खजूरी कला रोड, भेल, भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल चंद्र डाड, उपसचिव.

संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2016

अधि. क्र. 43-एफ 1-15-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) के अंक क्रमांक 384 में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 12 एफ-1-15-2016-अठारह-3, दिनांक 15 सितम्बर 2016 से नगर पालिका परिषदों में एल्डरमेन मनोनीत

किये गये थे, जिसमें नगर पालिका परिषद् सारंगपुर जिला राजगढ़ के मनोनीत एल्डरमेन का नाम त्रुटिपूर्ण अंकित हो गया है, के स्थान पर क्रमांक 5 में अंकित संशोधित नाम एवं पता पढ़ा जाये:—

स. क्रं.	जिले का नाम	नगरपालिका परिषद का नाम	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता	संशोधित नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	राजगढ़	सारंगपुर	श्री किशन पुष्पद श्री शिवचरण वार्ड नं. 1, सारंगपुर.	श्री शिवचरण पुष्पद पिता श्री किशन पुष्पद वार्ड नं.1, सारंगपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल चंद्र डाड, उपसचिव.